



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, जुलाई 11—जुलाई 17, 2010, शनिवार/आषाढ़ 20—आषाढ़ 26, 1932  
No. 18] NEW DELHI, JULY 11—JULY 17, 2010, SATURDAY/ASADHA 20—ASADHA 26, 1932

इस भाग में धिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2010

आ.अ. 33.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009 में स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में दर्शाए गए अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, राज्य की विधान परिषद् अथवा विधान सभा अथवा संसद के दोनों सदनों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किए जाते हैं :—

## सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एवं पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाराष्ट्र राज्य में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	12-गडचिरोली-चिमुर् (अ.ज.जा.)	प्रोफेसर खण्डाले कावडु तुलसीराम मार्फत श्री सदाशिव बन्सोड टेलर जलमापन केन्द्र के समीप राणाप्रताप वार्ड, स्थान पोस्ट ता. कुरखेडा, जिला-गडचिरोली	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	19-औरंगाबाद	माणिक रामू शिन्दे पी-13,, आरोग्य कर्मचारी हो. सोसाइटी एन-7, सिडको, औरंगाबाद	-वही-
3.	-वही-	21-नाशिक	प्रवीनचन्द्र दत्ताराम देधे जयदांत बंगला वैभव कालोनी, राजीव नगर, नाशिक	-वही-
4.	-वही-	-वही-	रायाते विजय सखाराम (रायते सर) कमरा नं. 889, मानोसे अपार्टमेंट, गोधानी लेन, प्लाट नं. 5, सिल्वर गणपति टेम्पल के पीछे, रविवार करंजा, नाशिक-422001	-वही-
5.	-वही-	33-मावल	मिश्रा उमाकांत रामेश्वर सोमालेन फाटा, ता. मावल, जिला-पुणे	-वही-
6.	-वही-	-वही-	महेन्द्र प्रभाकर तिवारी तिवारी सदन, नेराल माधेरन रोड, स्थान पोस्ट नेराल, ता0 करजत, जिला रायगढ़-41011	-वही-
7.	-वही-	34-पुणे	सविता हजारे 120, रास्ता पेठ, पुणे-411011	-वही-
8.	-वही-	-वही-	बालू उर्फ अनिल शिरोले 58, पूना स्टेशन जूनी खादी मशीन, श्रमिक नगर, गणेश अपार्टमेंट पुणे	-वही-
9.	-वही-	-वही-	शिन्दे राजेन्द्र बाबूराव 238, मंगलवार पेठ, पुणे-411011	-वही-

[सं. - 76/महा. -लो.स./2009]

आदेश से,  
बर्नार्ड जॉन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 7th July, 2010

**O. N. 33.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2009 in the Maharashtra State specified

in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Lok Sabha, 2009 in the Maharashtra State	12-Gadchiroli-Chimur (ST.)	Proffesor Khandale Kawdu Tulshiram C/o Shri Sadashiv Bansod, Tailar Near Jalmapan Centre Ranapratap Ward, At. Post, Tal. Kurkheda, Distt., Gadchiroli	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	19-Aurangabad	Manik Ramu Shinde P. 13, Arogy Karmachari Hos. Society, N-7, Cidco, Aurangabad	-do-
3.	-do-	21-Nashik	Pravinchandra Dattaram Dethe Jaydatta Bangala Vaibhav Colony, Rajiv Nagar Nashik	-do-
4.	-do-	-do-	Rayate Vijay Sakharam (Rayte Sir) Room No. 889, Bhanose Apartment, Gaydhani Lane, Plot No. 5, Behind Silver Ganpati Temple, Raviwar Karanja, Nashik-422001	-do-
5.	-do-	33-Maval	Mishra Umakant Rameshwar Somalane Phata, Tal. Maval, Distt. Pune	-do-
6.	-do-	-do-	Mahendra Prabhakar Tiwari Tiwari Sadan, Neral, Matheran Road, At Post Neral, Tal Karial, Distt. Raigad-410101	-do-
7.	-do-	34-Pune	Savita Hajare 120, Rasta Peth, Pune0411011	-do-
8.	-do-	-do-	Balu Alias Anil Shirole 58, Puna Station, Juni Khadi Machine, Shramik Nagar, Ganesh Apartment, Pune	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	General Election to the Lok Sabha, 2009 in the Maharashtra State	34-Pune	Shinde Rajendra Baburao 238, Mangalwar Peth, Pune-411011	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/MT-HP/2009]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2010

आ.अ. 34.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009 में स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में दर्शाए गए अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह घोषणा करता है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, राज्य की विधान परिषद् अथवा विधान सभा अथवा संसद के दोनों सदनों अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किए जाते हैं :—

## सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एवं पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	2-शहादा (अ.ज.जा.)	वलवी अशोक जुम्मा मु. पो. छोटा धनपुर ता. तलोदा, जि. नंदुरबार	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	2-शहादा (अ.ज.जा.)	पावरा प्रमिला केलसिंग मु. लिबडी, पो. जावदे, त. बो. ता. शहादा, जि. नंदुरबार	-वही-
3.	-वही-	3-नंदुरबार (अ.ज.जा.)	वलवी अशोक जुम्मा मु. पो. छोटा धनपुर ता. तलोदा, जि. नंदुरबार	-वही-
4.	-वही-	62-साकोली	केवट संजय गजानन विवेकानंदनगर, तुमसर, ता. तुमसर जिला भंडारा	-वही-
5.	-वही-	62-साकोली	मेश्राम परमानंद वामनराव मु. पो. धानोड, ता. साकोली जिला भंडारा	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	71-चंद्रपुर (अ.जा.)	खोब्रागडे देशक गिरीश दाताला रोड, चंद्रपुर	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
7.	—वही—	71-चंद्रपुर (अ.जा.)	दहेगावकर सुनिल देवराव आकाशवाणी चंद्रपुर	—वही—
8.	—वही—	72-बल्लारपुर	देवदत्त हंसराज रामटेके विद्यानगर वार्ड बेधर जनकल्याण सोसाइटी, बल्लारपुर, जि. चंद्रपुर	—वही—
9.	—वही—	72-बल्लारपुर	मुकुन्दराव गोबिंदा टेकाम रविंद्रनगर वार्ड, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर	—वही—
10.	—वही—	141-उल्हासपुर	चेतन रामा सुरवाडे डॉ. आंबेडकरनगर, चोपड़ा, गीता किराना स्टोर के नजदीक, उल्हासनगर-3	—वही—
11.	—वही—	144-कल्याण ग्रामीण	विद्याचंद्र दिगंबर दीक्षित द्वारा अनिल प्रजापती, प्रजापती सदन नजदीक शंकर मुकादम चाल, शिल रोड, नेतिवली, कल्याण (पूर्व) जिला ठाणे	—वही—
12.	—वही—	146-ओबला माजिवडा	जगदीश मोतीराम पाटील श्रीसाईकृपा बिल्डिंग बालकुम नं. 1, ठाणे (पश्चिम) 400608	—वही—
13.	—वही—	146-ओबला माजिवडा	बालासाहेब भिवा गायकवाड प्रयागसिंह चाल, डेनिस कम्पाउंड, वीर सावरकर नगर, ठाणे (पश्चिम)	—वही—
14.	—वही—	146-ओबला माजिवडा	हेमंत फुलचंद यादव मिलिंद सी.एच.एस. रूम नं. सी-34, समतानगर, पोखरण रोड नं. 1, ठाणे, (पश्चिम)	—वही—
15.	—वही—	195-जुन्नर	राक्षे पोपट सखाराम मु. पो. खुबी, ता. जुन्नर, जिला पुणे	—वही—
16.	—वही—	195-जुन्नर	शिंदे शंकर तुकाराम मु. पो. बेल्हे ता. जुन्नर, जिला पुणे	—वही—
17.	—वही—	198-शिरूर	विकास सदाशिव लबांडे मु. शिंदेवाडी, पो. आष्टापुर, ता. हवेली, जिला पुणे	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2009	200-इंदापूर	मदने मच्छिंद्र गणपत मु. पो. सणसर (38 फाटा) ता. इंदापूर, जिला पुणे	अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19.	--वही--	203-भोर	धारे मोरेश्वर छबनराव मु. पिंपलोली, पोस्ट रिहे, ता. मुलशी, जिला पुणे	--वही--
20.	--वही--	203-भोर	पडलधर सुधाकर भिकौबा मु. पडलधरवाडी, पोस्ट रिहे, ता. मुलशी जिला पुणे	--वही--
21.	--वही--	205-चिंचवड	अक्का उर्फ रेखा संजय शिंदे हरी ओम कॉम्पलेक्स, नजदीक संजोग वाघेरे, डी.पी.सी.सी. बैंक के पीछे पिंपरीगांव, पुणे-17	
22.	--वही--	205-चिंचवड	ढोरे दशरथ विठोबा 268/9, सांगवी गावठाण, ताना हवेली, जिला पुणे-27	--वही--
23.	--वही--	207-भोसरी	दत्तात्रय लक्ष्मण गायकवाड हनुमन्त नगर, चिखली पुणे-412114	--वही--
24.	--वही--	209-शिवाजीनगर	गौतम विनायक भोसले 77/7, न्यू 'II' टाईप, रेंजहिल्स, खडकी, पुणे-411020	--वही--
25.	--वही--	210-कोथरूड	विजय रमेश बोडेकर 3/14, रुणवाल पेनोरमा, वारजेमालवाडी, पुणे-411052	--वही--
26.	--वही--	211-खडकवासला	दिलीप सुदाम कोलेकर गोसावीवस्ती, बडगांव बु. ता. हवेली, जिला पुणे	--वही--
27.	--वही--	212-पर्वती	गदादे शिवाजी भिवा सर्वे नं. 242, प्लॉट नं. 16, पर्वती पायथा, पुणे-411009	--वही--
28.	--वही--	213-हडपसर	मगर विक्रम शिवाजी क्रम सं. 140, माधव बंगला, मगरपट्टा हडपसर, पुणे-28	--वही--

**ORDER**

New Delhi, the 7th July, 2010

**O. N. 34.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Maharashtra Legislative Assembly, 2009 specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Elections to the Maharashtra Legislative Assembly, 2009	2-Shahada (S.T.)	Valvi Ashok Jamma At Post, Chhota Dhanpur Tal. Taloda Distt. Nandurbar	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	2-Shahada (ST)	Pawra Pramila Kelsing At Limbardi P.O. Javade T.B. Tal. Shahada, Distt. Nandurbar	-do-
3.	-do-	3-Nandurbar (ST)	Valvi Ashok Jmma At, Post, Chota Dhanpur, Tal. Taloda Distt. Nandurbar	-do-
4.	-do-	62-Sakoli	Kewat Sanjay Gajanan At. Vivaknand Nagar, Tumsar Tah. Tumsar, Distt. Bhandara	-do-
5.	-do-	62-Sakoli	Meshram Parmanand Wamanrao At Post Ghanod, Tah. Sakoli, Distt. Bhandara	-do-
6.	-do-	71-Chandrapur (SC)	Khobragade Deshak Girish Datala Road, Chandrapur	-do-
7.	-do-	71-Chandrapur (SC)	Dahegaokar Sunil Deorao Akashwani Chandrapur,	-do-
8.	-do-	72-Ballarpur	Deodatta Hansraj Ramteke Vidya Nagar Ward, Beghar Janakalyan Society, Ballarpur, Distt. Chandrapur	-do-

256146/10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	General Elections to the Maharashtra Legislative Assembly—2009	72-Ballarpur	Makundarao Govinda Tekam Ravindra Nagar Ward, Ballarpur Distt. Chandrapur	Failed to lodge any account of his election expenses.
10.	-do-	141-Ulhashagar	Chetan Rama Sarvade Dr. Ambedkar Nagar, Chopda, Near Geeta Kirana Store, Ulhasnagar-1	-do-
11.	-do-	144-Kalyan Rural	Vidyachandra Digambar Dixit C/o. Anil Prajapati, Prajapati Sadan, Shankar, Mukadam Chawl Near, Shil Road, Netivali Kalyan (Fast) Distt. Thane	-do-
12.	-do-	146-Owala Majiwada	Jagdish Motiram Patil Shrisaikupa Bldg. Balkum, No. 1, Thane (West)- 400608	-do- -do-
13.	-do-	146-Owala Majiwada	Balasaheb Bhiva Gaikwad Prayagsingh Chawl, Dennis Compound, Veer Swarkar Nagar, Thane (West)	-do-
14.	-do-	146-Owala Majiwada	Hemant Phulchand Yadav Milind CHS, Room No. C-34, Samata Nagar, Pokharan Road, No. 1, Thane (West)	-do-
15.	-do-	195-Junnar	Rakshe Popat Sakharam At PO Khubhi, Tal. Jannar, Distt. Pune	-do-
16.	-do-	195-Junnar	Shinde Shankar Tukaram At/P Belhe Tal. Jannar Distt. Pune	-do-
17.	-do-	198-Shirur	Vikas Sadashiv Lavande At Shindewadi, Post Astapur, Tal. Haveli, Distt. Pune	-do-
18.	-do-	200-Indapur	Madane Machhindra Ganpat A/P, Sansar (38 phata), Tal. Indapur, Distt. Pune	-do-
19.	-do-	203-Bhor	Ghare Moreshwar Chabanrao At Pimploli, Post Rihe, Tal. Mulshi, Distt. Pune	-do-
20.	-do-	203-Bhor	Padalghare Sudhakar Bhikoba At Padalgharewadi Post Rihe, Tal, Mulahi, Distt. Pune	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	General Elections to the Maharashtra Legislative Assembly, 2009	205-Chinchawad	Akka alias Rekha Sanjay Shinde Hari Om Complex, Near Sanjog Waghere, Backside of P.D.C.C. Bank, Pimpsigaon, Pune-17	Failed to lodge any account of his election expenses
22.	-do-	205-Chinchawad	Dhore Dashrath Vithoba 268/9, Sangvi Gavthan, Tal. Haveli, Distt. Pune-27	-do-
23.	-do-	207-Bhosari	Dattatray Laxman Gaikwad Hanumant Nagar, Chikhli, Pune-412114	-do-
24.	-do-	209-Shivaji Nagr.	Goutam Vinavak Bhosale 77/7, New 'II', type, Ramgehills, Khadaki, Pune-411020	-do-
25.	-do-	210-Kothrud	Vijay Ramesh Bodekar 3/14, Runwal Panorama, Warjernalwadi, Pune-411052	-do-
26.	-do-	211-Khadakwasla	Dilip Sudam Kolekar Gosavivasti, Wadgaon Bk. Tal. Haveli, Distt.-Pune	-do-
27.	-do-	212-Parvati	Gadade Shivaji Bhiwa Survey No. 242, Plot No. 16, Parvati Paytha Pune-411009	-do-
28.	-do-	213-Hadarwar	Magar Vikram Shivaji S. No. 140, Madhav Bungalow, Magar Patta, Hadapsar, Pune-28	-do-

[No. 76/MT-LA/2009]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.